



प्रेस नोट थाना जैतपुर जनपद आगरा

थाना जैतपुर पुलिस टीम द्वारा मोबाइल लूट करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलाह व चोरी का मोबाइल बरामद...

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिये गये आदेशानुसार चोरी, लूट, डकैती, आदि अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पूर्वी के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी बाह के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी जैतपुर को टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रमानुसार दिनांक 25.06.2021 को गठित पुलिस टीम संदिग्ध व्यक्ति व वाहन हेतु चैकिंग/गश्त में व्यस्त थी। गश्त/चैकिंग के दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि मोबाइल लूट करने वाले 02 अभियुक्त इस समय कमतरी पुल की तरफ मोटर साइकिल से आ रहे हैं। यदि जल्दी की जाए तो गिरफ्तार किया जा सकता है।

पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण:-

पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए बताये स्थान पर पहुंच चैकिंग प्रारम्भ की गयी। कुछ समय बाद एक अपाचे मोटर साइकिल पर 02 व्यक्ति आते हुये दिखायी दिये, रुकने का इशारा करने पर पुलिस टीम को देख मोटर साइकिल पीछे मोडकर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही कर पीछा कर चारों ओर से घेर कर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 अदद मोबाइल, 01 अदद तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस व 01 अदद मोटर साइकिल बरामद हुयी।

पूछताछ का विवरण:-

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया हमने ये मोबाइल थाना चित्राहट क्षेत्र में एक व्यक्ति से लूटा था एवं आज हम लोग इसे बेचने जा रहे थे। उपरोक्त मोबाइल के सम्बन्ध में थाना चित्राहट पर मु0अ0सं0 29/21 धारा 392 भादवि पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. रोकी पुत्र शेर सिंह निवासी विष्णुपुरा थाना बाह जनपद आगरा उम्र करीब 23 वर्ष
2. दीपक पुत्र राजेश निवासी कोठी कैस्त थाना जसवन्तनगर इटावा उम्र करीब 26 वर्ष





बरामदगी का विवरण –

01. 1 अदद मोबाइल ।
02. 1 अदद तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस ।
03. 1 अदद मोटर साइकिल अपाचे (लूट में प्रयुक्त) ।

आपराधिक इतिहास का विवरण:-

01. मु0अ0सं0 29/2021 धारा 392 भादवि थाना चित्राहाट आगरा ।
02. मु0अ0स 100/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जैतपुर जनपद आगरा ।
03. मु0अ0सं0 101/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जैतपुर जनपद आगरा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

01. थानाध्यक्ष श्री योगेन्द्रपाल सिंह थाना जैतपुर जनपद आगरा ।
02. थानाध्यक्ष श्री महेन्द्र सिंह भदौरिया थाना चित्राहाट जनपद आगरा ।
03. उ0नि0 श्री सौरभ सिंह थाना जैतपुर जनपद आगरा ।
04. उ0नि0 श्री कुलदीप कुमार थाना जैतपुर जनपद आगरा ।
05. उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना चित्राहाट जनपद आगरा ।
06. है0का0 सत्यप्रकाश, है0का0 राकेश कुमार, है0का0 संजय कुमार थाना जैतपुर जनपद आगरा ।
07. का0 निर्देश कुमार व का0 नितीश कुमार थाना चित्राहाट जनपद आगरा



मीडिया सेल जनपद आगरा।

